

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

क्या बकरी ईद पर 6 और 7 जून को बंद रहेंगे बैंक ? जाने RBI की छुट्टी सूची के अनुसार पूरी जानकारी ।

Publisher

Published on 05 Jun 2025



बकरी ईद 2025 पर बैंक अवकाश को लेकर भ्रम की स्थिति, जानिए किन राज्यों में रहेगी बैंक शाखाएं बंद ।

नई दिल्ली : बकरी ईद (ईद-उल-अजहा) का त्योहार नजदीक है और ऐसे में यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या 6 और 7 जून 2025 को बैंक बंद रहेंगे ? भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, देश के कुछ हिस्सों में बैंक स्थानीय अवकाश के तहत बंद रहेंगे, लेकिन सभी राज्यों में नहीं । आइए जानें **RBI हॉलिडे कैलेंडर 2025** के मुताबिक कौन-कौन से शहरों में बैंक की सेवाएं प्रभावित होंगी ।

6 जून 2025 – बकरी ईद पर किन जगहों पर बैंक रहेंगे बंद ?

शुक्रवार, 6 जून 2025 को कोच्चि और तिरुवनंतपुरम (केरल) में बकरी ईद के मौके पर बैंक बंद रहेंगे । यह अवकाश RBI की छुट्टी सूची में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है और यह स्थानीय पर्व आधारित अवकाश है ।

7 जून 2025 – पहले शनिवार पर क्या रहेगा बैंक खुला ?

शनिवार, 7 जून को भारत में महीने का पहला शनिवार है, इसलिए अधिकतर जगहों पर बैंक खुले रहेंगे । हालांकि, कुछ क्षेत्रों जैसे गंगटोक, ईटानगर और अहमदाबाद में स्थानीय कारणों से बैंक बंद रह सकते हैं ।

इसलिए यदि आपको 6 से 8 जून के बीच बैंक शाखा में कोई जरूरी कार्य है तो अपने स्थानीय बैंक शाखा से संपर्क करके अवकाश की पुष्टि अवश्य कर लें ।

डिजिटल सेवाएं रहेगी चालू

बैंकिंग छुट्टियों के दौरान ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि:

UPI

नेट बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग

ATM सेवाएं

डेबिट/क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन

जैसी डिजिटल सेवाएं बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी।

बैंक अवकाश से पहले रखे इन बातों का ध्यान

१. हर महीने की शुरुआत में **RBI का छुट्टी कैलेंडर** जरूर देखें।
२. अगर **नकद जमा/निकासी या चेक विलियरेस** जैसे कार्य करने हैं तो अवकाश से पहले निपटा लें।
३. **डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता दें**, जिससे अवकाश के दौरान कोई असुविधा न हो।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.